

बीजिंग □ चीन का गांसू प्रांत आज 6.6 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा □ भूकंप में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई और करीब 300 घायल हो गए □

गांसू के प्रांतीय भूकंप ब्यूरो के अनुसार भूकंप मनिजियान और झांगजियान काउंटी में स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे 45 मिनट पर महसूस किया गया □

सरकारी समाचार □ जैसी शनिहुआ के अनुसार भूकंप का केंद्र प्रांतीय राजधानी लानझोउ से 170 किलोमीटर दूर और 20 किलोमीटर की गहराई में था □ इसी इलाके में सुबह 9:12 बजे 5.6 तीव्रता के भूकंप का झटका परि महसूस किया गया □

गांसू भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा, “भूकंप में मरने वालों की संख्या 47 हो गई है और 296 लोग घायल हुए हैं □”

झांगजियान काउंटी में 5,600 मकनों के करीब 21,000 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं □ मनिजियांग प्रांत में दूरसंचार नेटवर्क और केबल की व्यवस्था ठप्प पड़ी गई है □

मनिजियान काउंटी के 13 कस्बों का संचार नेटवर्क ठप्प पड़ा गया है □ इस काउंटी के ज्यादातर कस्बे भूकंप से प्रभावित हुए हैं □ मेचुआन और प्यूमा सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं □

डगिसी सट्टी के नागरिक मामलों के ब्यूरो ने बताया कि भूकंप में कई मकान ढह गए हैं □ सरकार ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू कर दिया है □

मनिजियान काउंटी सरकार के सूत्रों ने कहा कि काउंटी के अधिकतर शहरों में भूकंप महसूस किया गया □ काउंटी के लोगों ने बताया कि उन्होंने जबर्दस्त झटका महसूस किया और पे □ तथा मकान हलिले लगे □ यह करीब □ क मिनट तक चला □

इस बीच, प □ के लांगनान, तनिशुई और प्रांतीय राजधानी लांझू में भी भूकंप महसूस किया गया □

शियान सट्टी के नविसी ली ने कहा कि जब वह सोया हुआ था तो उसने जबर्दस्त झटका महसूस किया □ वह इमारत की 31 वीं मंजलि पर था □

प्रशासन ने सैनिकों, पुलिस और 300 से अधिक स्थानीय जवानों को भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए रवाना कर दिया है □ प्रांतीय नागरिक कार्य विभाग ने 500 तंबू और 2000 रजाई-गद्दे भेजे हैं □

चीन के रेड क्रॉस सोसायटी ने भी आपदा राहत दल को रवाना किया है और 200 तंबू □ व दूसरे सामान प्रभावित इलाकों में भेजे हैं □

लानझोउ रेलवे ब्यूरो ने रेलवे पुलों और संचार उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाना शुरू कर दिया है □